

रजि. नं. 83/2017

Pan No. AACTV6087A

TRUST 80G No. AACTV6087AF20221

TRUST 12A No. AACTV6087AE20221

आयकर की धारा 80G/12A के तहत दानदाता को छूट प्राप्त



विज्ञापन

संस्कार-चेतना

मार्ग दर्शिका

“भारतीय संस्कृति एवं संस्कार
जागरूकता अभियान को समर्पित”

दीनदयाल जाखड़

मुख्य ट्रस्टी एवं संस्थापक



टीम वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् दी प्राइड ऑफ नेशन ट्रस्ट

कार्यालय : ऋषभ अपार्टमेंट, गाँधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर 302021 (राज.)

फोन नं. : 95215 13271, 78498 81370

टीम वंदे मातरम् के उद्देश्य एवं लक्ष्य

- 1 स्कूल, कॉलेज में वंदे मातरम् गीत का गायन अनिवार्य करना।
- 2 प्रतिदिन स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में प्रतिज्ञा को दोहराना।
- 3 कक्षा 8 से प्रतिवर्ष छात्रों को पांच पेड़ लगाने का लक्ष्य प्रदान करना।
- 4 सदस्यों की बिना किसी जाति एवं धर्म भेदभाव, पारिवारिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- 5 युवा सदस्यों की नेतृत्व क्षमता विकसित कर, सत्ता में भागीदारी करने हेतु तैयार करना।
- 6 बेखौफ, बेबाक अपनी बात रखने हेतु मंच प्रदान करना।
- 7 भारतीय संस्कार एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करना।
- 8 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सहयोग उपलब्ध कराना।
- 9 युवा वर्ग को कौशल विकास स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
- 10 प्राथमिक स्तर पर भारतीय संस्कृति एवं संस्कार (नैतिक आध्यात्मिक एवं पर्यावरण), सामाजिक व्यवहार (कला- शिक्षा), स्वयं की सुरक्षा (स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुरक्षा) एवं यातायात के नियम की शिक्षा अनिवार्य करना।
- 11 भारत के युवाओं को देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावहारिक एवं कानूनी स्थितियों से अवगत कराते हुए एक सूत्र में बांधना।
- 12 भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं, इतिहास के प्रति जाग्रति लाने का कार्य करना।
- 13 युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर सकारात्मक सेमिनार आयोजित कर उनके निराशाभाव को समाप्त करना।
- 14 युवा धड़कनों वाला नेतृत्व तैयार करने हेतु राजनैतिक शिक्षण – प्रशिक्षण द्वारा जनता का विपक्ष तैयार करना।
- 15 ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा "ग्राम बचाओ – देश बचाओ" मिशन चलाना।
- 16 युवा वर्ग को देश के विविध रोजगार अवसरों की ओर ध्यान आकर्षित करना जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत देश का निर्माण हो सके।
- 17 सभी सरकारी शिक्षकों को केवल अध्यापन का कार्यभार सौंपना जिससे उनके दायित्व (अध्यापन) में इनकी भूमिका सुनिश्चित किया जा सके।
- 18 आमजन की सुरक्षा एवं अपराधों पर नियंत्रण हेतु हर क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा दल का गठन किया जाकर लगातार घटित हो रहे अपराधों पर रोकथाम कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

“टीम वंदे मातरम् द्वारा संस्कार चेतना की शुरुआत”

❖ संस्कार

- दैनिक संस्कार एवं सावधानियां
- स्थायी संस्कार
- व्यवहारिक संस्कार
- सामाजिक संस्कार

❖ सेवा

- मानवता सेवा
- जीव-जन्तु सेवा
- पर्यावरण/प्रकृति सेवा

❖ नियम

- स्वास्थ्य के प्रति नियम
- खानपान दिनचर्या के नियम
- यातायात के नियम

विज्ञापन

आज ही सदस्यता लेवें

 95215-13271

संस्कार

दैनिक संस्कार :

1. प्रातः सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठे और उठने के साथ ही धरती पर पैर रखने से पूर्व धरती माँ को हाथ से छूकर प्रणाम करें। (मन में स्मरण कर धरती माँ का आभार प्रकट करें, कि मेरे जैसे सभी प्राणियों सहित अन्य जीवों का भार अपने पर उठाया हुआ है।)
2. अपनी दोनो हथेलियां जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करें। तथा नए दिन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लें और आभार जताएं।
3. अपने सभी बड़े-बुजुर्गों से चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। (चाहे वह माता-पिता है, दादा-दादी या जो भी कोई बड़ा-बुजुर्ग घर में उपस्थित है।)
4. सभी अपने नित्यकर्म को पूर्ण करें।
5. स्नान आदि के पश्चात् कुछ समय ईश्वर का ध्यान करें।
6. घर प्रस्थान करने के पूर्व भोजन अवश्य करें तथा माता-पिता से घर से प्रस्थान करने की आज्ञा अवश्य लें।
7. दिन में अपने कार्य पूर्ण कर घर लौटने पर माता-पिता के पास अवश्य ही कुछ समय बितायें। दिनचर्या में किये गए कार्यों के विषय में अच्छे-बुरे अनुभवों की चर्चा उनके साथ अवश्य करें।
8. इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखे की दिनभर कार्य के दौरान घर आने तक एक भलाई का कार्य अवश्य करने की चेष्टा करें।
9. संध्या के समय थोड़ा वक्त खेल-कूद, व्यायाम को अवश्य दें।
10. रात्रि विश्राम 10:00 बजे पूर्व ही करने की चेष्टा करें। सोने से पूर्व बिस्तर पर दो मिनट ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें तथा दिनभर में किए गए कार्यों से जाने-अनजाने में किसी को कोई कष्ट पहुँचा हो उसके लिए क्षमा मांगें।

दैनिक सावधानियां :

1. प्रातः काल अतिआवश्यक होने की दशा में ही मोबाईल का प्रयोग करें अन्यथा मोबाईल से दूर रहें।
2. सोते समय मोबाईल को दूर रखें तथा सोने से एक घण्टे पहले ही मोबाईल से दूरी बना लें।
3. किसी भी व्यक्ति की निंदा-ईश निंदा में समय खराब ना करें।
4. माता-पिता बुजुर्गों के द्वारा दी गई सलाह को अवश्य मानें, इसमें आपकी भलाई ही छिपी होगी।
5. अपरिचित लोगों से दूर रहें उनके साथ नहीं जाए, उनका दिया भोजन अथवा खाद्य वस्तु नहीं खाए तथा अपनी एवं अपने परिवार की अधिक जानकारी नहीं दें।
6. सार्वजनिक स्थान पर या मोबाईल पर जोर-जोर से बातचीत नहीं करें।
7. सोशल मीडिया पर अपनी सामान्य जानकारी ही रखें। (व्यक्तिगत एवं घरेलू चित्र आदि की जानकारी साझा नहीं करे।)
8. किसी भी स्थिति में सोशल मीडिया पर अपरिचितों से ज्यादा घरेलू बात या स्वयं व परिवार के चित्र, वीडियो शेयर नहीं करें।

स्थायी संस्कार :

1. अपना स्वयं का कार्य स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें।
2. अपनी पुस्तकों, वस्त्रों, खेलकूद सामग्री, जूते-चप्पल व घरेलू सामान यथा स्थान पर रखने का प्रयास करें।
3. बड़ों की व्यक्तिगत वस्तुओं को बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल नहीं करें।
4. आगामी दिवस के सभी कार्यों को सोने से पहले सूचीबद्ध करें, ताकि आपको असुविधा नहीं हों।

व्यवहारिक संस्कार :

1. सभी बड़े-बुजुर्गों से सम्मानपूर्वक बात करें, अपने बराबर के लोगों से मधुर वाणी में ही बात करें तथा अपने से सभी छोटों से स्नेह-पूर्वक व्यवहार करें।
2. घर में बड़ों के बीच हो रही किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं बने जब तक कि आपको शामिल होने को ना कहा जाए।
3. अपने बड़ों से किसी भी बात पर बहस नहीं करें तथा उनके द्वारा कही गई बात को आदरपूर्वक सुने यदि आपको प्रत्युत्तर में कुछ कहना है तो विनम्रता पूर्वक ही कहें।
4. सभी के साथ आदर और विनम्र व्यवहार रखें कोई भी ऐसी बात जो किसी के द्वारा कही जाने पर आपको आहत करें या दुख पहुँचाये ऐसा व्यवहार आप भी किसी के साथ ना करें।
5. यथासंभव बहसबाजी, लड़ाई-झगड़े से दूरी बनायें रखें।

सामाजिक संस्कार :

1. अपने से सभी बड़े-बुजुर्गों को आदरपूर्वक उचित सम्मान से ही पुकारें, उनका नाम लेकर नहीं पुकारें।
2. किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, यथासंभव सहयोग करने की भावना रखें।
3. आपसे बड़ी सभी माताओं व बहनों को उचित सम्मान से पुकारें तथा उनको किसी भी दुविधा में देखें तो उचित सहयोग करें।
4. अनुचित एवं अभद्र प्रकार के नृत्य, वीडियो या ऑडियो का बहिष्कार करें तथा उनको प्रोत्साहित नहीं करें।
5. किसी भी धर्म, जाति को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं करें तथा सभी को मानवता की दृष्टि से देखें एवं उचित सम्मान दें।
6. कोई भी कार्य छोटा नहीं होता अतः किसी भी प्रकार के किये जा रहे कार्यों पर टिप्पणी नहीं करें एवं उनको हीन दृष्टि से ना देखें तथा उनको उचित सम्मान दें।
7. यदि किसी भी मजबूर इंसान का मजाक उड़ाने का ख्याल आये तो उसके स्थान पर स्वयं को रखकर देखें।

सेवा

मानवता सेवा:

1. आपकी किसी भी प्रकार से सहायता करने वाले का उपकार कभी ना भूले।
2. किसी भी प्रकार की घटना-दुर्घटना में यथाशीघ्र मदद करें और करवायें, केवल वीडियो नहीं बनाएं।
3. अपने आस-पास के अभाव से ग्रसित मानवों की मदद करें, चाहें वह बीमार हो, भूखा हो, चाहे वह शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम ना हो आप यथायोग्य सहायता करें एवं करवायें।
4. किसी भी प्रकार मानसिक एवं शारीरिक रूप से जन्मजात या दुर्घटनावश ग्रसित मानव को प्रोत्साहित करें। उनका मजाक नहीं उड़ाये तथा उनको सक्षम बनने में सहायता करें।

जीव-जन्तु सेवा:

1. अपने आस-पास रह रहे मानव के सहयोगी पशु-पक्षियों का ध्यान रखे उनके लिए आवश्यक दाने-पानी की व्यवस्था करावें।
2. बीमार पशु-पक्षियों को उचित चिकित्सा सहायता के लिए कार्य करें।(ऐसी सेवा करने वाली संस्थाओं को सूचित करें।)
3. दुधारू पशुओं से विशेषकर देसी गोवंश को दूध नहीं देने या बीमार होने पर सड़क पर नहीं छोड़े। यदि आप सक्षम नहीं है तो नजदीकी गौशाला में इनकी व्यवस्था करने हेतु सूचना दें।
4. बिना किसी कारण के कुत्तों, गाय, सांड, बंदर एवं पक्षियों आदि अन्य जीव-जन्तुओं को प्रताड़ित नहीं करें।
5. त्यौहारों पर इस बात का विशेष ध्यान रखें की हमारे कारण जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों को हानि न पहुंचें।
6. गाय, कुत्ते या अन्य जीवों को प्लास्टिक की थैली में रखकर खाद्य सामग्री नहीं दें। उनकी जान बचायें। प्लास्टिक के थैली का प्रयोग नहीं करें। (प्लास्टिक की थैली खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है।)

पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा:

1. अपने आस-पास पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति की शुद्धता बढ़ाये व संकल्प करें की प्रतिवर्ष, वर्षा ऋतु में पाँच लम्बी आयु के वृक्ष लगाने है तथा उनका पालन भी करना है। (बिना अतिआवश्यकता के कोई पेड़ नहीं काटें तथा कोई ऐसा करें तो उसे भी रोकने का प्रयास करें)
2. जल के स्रोत को बाधित ना करें, प्राकृतिक वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु कार्य करें। एकत्र हुए जल को दूषित नहीं करे।
3. जहां तक हो सके वर्षा जल के लिए आधुनिक व पुरातन विधियों को काम में लेकर "वाटर हारवेस्टिंग" के माध्यम से जमीनी जल स्तर को बढ़ाएं।
4. घरेलू कचरा तथा आपके द्वारा फैंका हुआ कचरा इधर-उधर कभी नहीं फैंके, एक निश्चित स्थान बनायें।
5. साफ-सफाई में हमारे घर के अलावा गली-मोहल्ला, सड़क आदि को साफ रखने में सहयोग करें।

6. प्लास्टिक की थैली का प्रयोग बंद करें। कपड़े से बने थैले ही सामान लाने हेतु प्रयोग में लें।
7. वायु-प्रदूषण रोकने हेतु यथासंभव अकारण कुछ भी ना जलाएं। वाहन का प्रयोग आस-पास जाने के लिए ना करें। कचरे को जलाने के बजाय जमीन में गाड़ दें।

नियम

स्वास्थ्य के प्रति नियम :

1. नियमित सूर्योदय से पूर्व जागें।
2. शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें।
3. व्यायाम नियमित रूप से करें।
4. छः से आठ घण्टें की नियमित नींद लें।

खान-पान के नियम :

1. भोजन नियमित तय समय पर करने की ही चेष्टा करें।
2. फास्ट फूड आदि से बचें।
3. चाय-कॉफी सहित किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थों के सेवन से दूर रहे।
4. तंबाकू, गुटखा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें। (यह बहुत हानिकारक होते हैं तथा कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा करते हैं।)
5. प्रतिदिन छः लीटर पानी आवश्यक रूप से पीयें।

यातायात के नियम :

1. पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करें। फुटपाथ नहीं होने की स्थिति में हमेशा सड़क के दायीं ओर चले।
2. पैदल चलने वाले लोगों के लिए जहां क्रॉसिंग बनी हो उसी के जरिए सड़क पार करें।
3. बस का इंतजार करते समय सड़क के बीच में कभी नहीं आयें तथा चलती बस के पीछे कभी ना भागे, वरना जान जोखिम में पड़ सकती हैं।
4. सड़क के बीच में बने बैरियर को कभी भी नहीं फांदें।
5. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है।
6. बिना लाईसेंस और सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना तथा बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन हैं साथ ही आपकी जान की जोखिम है।
7. वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाईट का पालन अवश्य करें। (**लाल लाईट:** वाहन रोकने का संकेत, **पीली लाईट:** वाहन रोकने की तैयारी और **हरी लाईट:** चलाने का संकेत)
8. कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं।
9. यदि कोई एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहन एवं पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन निकले तो उन्हें पहले रास्ता दें।

-: टीम वन्दे मातरम् :-

‘‘काम आपका - साथ हमारा’’

अभियान

टीम वन्दे मातरम् के द्वारा किये जाने वाले आगामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर एक कार्यालय स्थापित करना एवं स्थानीय युवाओं को इसकी जिम्मेदारी देना।
2. संस्कार मार्गदर्शिका का वितरण विद्यालय वार कक्षा 5 से 12 तक करना।
3. ग्राम पंचायत की समस्याओं की विस्तृत जानकारी जुटाने हेतु घर-घर सर्वे करना।
4. ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को सूचीबद्ध करके उनको रुचि अनुसार कार्य उपलब्ध कराना।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा ‘‘ग्राम बचाओ-देश बचाओ’’ मिशन चलाना।
6. युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर सकारात्मक सेमिनार आयोजित कर उनके निराशा भाव को समाप्त करना।
7. भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं, मान्यताओं, इतिहास के प्रति जागृति लाने का कार्य करना।
8. युवा वर्ग को कौशल विकास स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सहयोग उपलब्ध कराना।
10. युवा सदस्यों की नेतृत्व क्षमता विकसित कर सत्ता में भागीदारी करने हेतु तैयार करना।
11. युवा धकड़नों वाला नेतृत्व तैयार करने हेतु राजनैतिक शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा जनता का विपक्ष तैयार कराना।
12. बेखौफ, बेबाक अपनी बात रखने हेतु मंच प्रदान करना।
13. सदस्यों की बिना किसी जाति एवं धर्म भेदभाव, पारिवारिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
14. कक्षा 8 से प्रति वर्ष छात्रों को 5 पेड़ लगाने एवं देखरेख करने का लक्ष्य प्रदान करना।

‘‘संगठित रहोगे-सुरक्षित रहोगे’’

छात्र की संस्कार पालन सम्बंधित मासिक रिपोर्ट

विद्यालय का नाम व स्थान :

छात्र/छात्रा का नाम : पिता का नाम : कक्षा :

निवास स्थान : मोबाईल नं. : पिता का मोबाईल नं. :

दिनांक	पृथ्वी नमन	चरण स्पर्श	नित्य कर्म	ईश वंदना	राष्ट्रगीत गायन	व्यायाम	दैनिक सहायता	सार्वजनिक श्रम-दान

.....
छात्र/छात्रा हस्ताक्षर

.....
अध्यापक हस्ताक्षर

.....
अभिभावक हस्ताक्षर

नोट : आपके द्वारा दी जाने वाली मासिक रिपोर्ट में ✓ अनिवार्य रूप से लगाएं।

दैनिक सहायता की व्याख्या व अन्य विवरण



.....
छात्र/छात्रा हस्ताक्षर

.....
अध्यापक हस्ताक्षर

.....
अभिभावक हस्ताक्षर

नोट : आपके द्वारा दैनिक सहायता की व्याख्या व विवरण पेजों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त पेज पर लिख संलग्न करें।

शपथ-पत्र

(छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाने हेतु)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

निवासी

.....पिन

अपनी पवित्र भारत भूमि तथा ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक संकल्प करता/करती हूँ, कि :

1. मैं टीम वन्दे मातरम् द्वारा दिये गए कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करूंगा/करूंगी।
2. मैं प्रतिदिन अपने घर परिवार के सभी बुजुर्गों एवं माता-पिता के चरणों को छूकर उनके आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करूंगा/करूंगी।
3. मेरे जिले में जहाँ भी वंदे मातरम् राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन होगा मैं उपस्थित रहूंगा/रहूंगी।
4. मैं प्रतिदिन पूरे तन और मन से ईश्वर का ध्यान/दर्शन किये बिना घर से प्रस्थान नहीं करूंगा/करूंगी।
5. मैं प्रतिदिन सत्य बोलने व सत्य सुनने की क्षमता को मजबूत करूंगा/करूंगी।
6. मैं प्रतिदिन किसी न किसी की कोई न कोई सहायता करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करूंगा/करूंगी।
7. मैं सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहूंगा/रहूंगी व अन्य व्यक्तियों को भी दूर रहने की सलाह दूंगा/दूंगी।
8. मेरे द्वारा आपातकालीन वाहन/एम्बुलेंस को सदैव रास्ता दिया जाएगा तथा जाम होने की स्थिति में रास्ता दिलवाने का यथासंभव प्रयास करूंगा/करूंगी।
9. मैं देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का आदर करूंगा/करूंगी।
10. मैं जाति, धर्म एवं भाषा आदि के भेद-भाव से परे रहूंगा/ रहूंगी। सभी जाति, धर्म व भाषा आदि का सम्मान करूंगा/करूंगी।
11. मैं सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी तथा हिंसा से दूर रहूंगा/रहूंगी।
12. मैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करूंगा/करूंगी। जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊचाईयों को छू सके।
13. मैं पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष एक वृक्ष लगाऊँगा तथा उसका पोषण भी करूंगा/करूंगी।
14. मैं वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा सहयोग राशि के रूप में 21 रुपये ट्रस्ट के लिए दिये जायेंगे।

छात्र/छात्रा हस्ताक्षर

अभिभावक हस्ताक्षर

अभिभावक से निवेदन :

मान्यवर,

“वन्दे मातरम् दी प्राइड ऑफ नेशन ट्रस्ट” आपसे विनम्र निवेदन करता है कि संस्कार चेतना (भारतीय संस्कृति एवं संस्कार जागरूकता अभियान को समर्पित) के अनुसार आपके पुत्र/पुत्री को प्रेरित कर इसको संस्कार सेनानी पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करें।

आप भी इस अभियान से जुड़कर ट्रस्ट को तन-मन-धन से जिस प्रकार आप चाहें सहयोग करें ताकि एक सुसंस्कृत एवं संस्कारी समाज की रचना कर देश में अमन-चैन को बढ़ावा मिले।

आपका अति आभार
दीनदयाल जाखड़
(मुख्य ट्रस्टी)

वन्दे मातरम् दी प्राइड ऑफ नेशन ट्रस्ट



टीम वंदे मातरम्

अभिभावक का विवरण
माता/पिता/अन्य

नाम : पिता का नाम : छात्र/छात्रा से संबंध :

माता का नाम : आयु : पता :

.....पिन :

मोबाईल नं. : (1)..... व्यवसाय :

 (2).....



टीम वंदे मातरम् की सदस्यता हेतु फॉर्म

वेबसाइट - www.vandemataramindia.com

मोबाइल नं. +91-95215 13271

ई-मेल - vandematramteam@gmail.com

78498 81370

1. मूलभूत जानकारी

नाम :.....

पिता का नाम :.....

माता का नाम :.....

जन्म तिथि :.....

2. संपर्क जानकारी

मोबाइल नंबर :.....

ई-मेल :.....

वैकल्पिक मोबाइल नंबर : (1) (2)

पता :.....

3. सत्यापन जानकारी

आधार / पहचान पत्र नंबर :.....(प्रतिलिपि सलंगन करें)

4. सदस्यता भुगतान

1. सामान्य सदस्य - निःशुल्क

2. सक्रिय सदस्य - 251/-

नोट:- यदि आप टीम वंदे मातरम् को अनुदान करना चाहते हैं तो स्वेच्छानुसार नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन कर अथवा खाता नंबर से स्वयंदान कर सकते हैं।




खाताधारक का नाम	Vandematram the pride of nation
खाता नंबर	361805000307
आईएफएससी कोड	ICIC0003618
बैंक का नाम	ICICI Bank
बैंक शाखा का पता	चौड़ा रास्ता, जयपुर

(आयकर की धारा 80जी एवं 12ए के तहत दानदाताओं को आयकर में छूट प्राप्त)

दिनांक

हस्ताक्षर



आवेदन हेतु निर्देश

वंदे मातरम् ट्रस्ट का सदस्य बनने हेतु इस फार्म को भरें तथा सक्रिय सदस्य बनने हेतु शुल्क जमा कराएं। तथा भरे हुए फॉर्म को स्कैन कर या फोटों खींचकर ई-मेल या व्हाट्सएप करें। अथवा ट्रस्ट के प्रदेश कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भेजें।

वंदे मातरम् द प्राइड ऑफ नेशन ट्रस्ट
प्रदेश कार्यालय: ऋषभ अपार्टमेंट, गाँधी पथ, वैशाली नगर,
जयपुर 302021 (राज.)

टीम वंदे मातरम् की सदस्यता एवं लाभ

टीम वंदे मातरम् की सदस्यता के लिए ट्रस्ट की वेबसाइट www.vandemataramindia.com पर जाकर नीचे दिये गए QR Code को स्कैन कर रजिस्टर करें।

सदस्यता के लाभ :

1. टीम वंदे मातरम् की सदस्यता को ग्रहण कर आप ट्रस्ट में उच्च स्तर पर पदोन्नति पा सकते हैं।
2. टीम वंदे मातरम् के द्वारा पहचान पत्र, ड्रेस कोड दिया जाएगा।
3. टीम वंदे मातरम् आपको अपने क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा।*
4. टीम वंदे मातरम् द्वारा आपको एक लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।*
5. टीम वंदे मातरम् आपकी सभी सरकारी गतिविधियों में हो रही देरी का निवारण टीम वंदे मातरम् द्वारा किया जाएगा।
6. टीम वंदे मातरम् शिक्षा, पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों को समर्पित रैलियां की जाएगी।
7. टीम वंदे मातरम् की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति एवं उसके पूरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। हर परिस्थिति में टीम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।
8. टीम वंदे मातरम् बुजुर्गों की पेंशन संबंधित तथा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित मामलों का ध्यान रखा जाएगा।
9. टीम वंदे मातरम् द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यों को करने से पूर्व बुजुर्गों से राय ली जाएगी।
10. टीम वंदे मातरम् महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
11. टीम वंदे मातरम् शिक्षा से वंचित बच्चों व युवाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी।
12. टीम वंदे मातरम् युवाओं हेतु रोजगार की समस्याओं का निवारण किया जाएगा एवं स्वरोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी।
13. टीम वंदे मातरम् को किसी भी प्रकार की राशि दान करने पर या सदस्यता प्राप्त करने हेतु दिये गए शुल्क आदि आयकर की धारा 80जी व 12ए के तहत दानदाताओं को टैक्स में छूट प्राप्त है।



वेबसाइट :

<https://www.vandemataramindia.com/>

मोबाईल नं. +91 78498 81370

टीम वन्दे मातरम् को सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए नीचे दिये गये
लिंक या क्यू आर कोड की मदद लें।

वंदे मातरम् मोबाइल ऐप के लिए लिंक एवं क्यूआर कोड

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vandemataramindia.in>



टीम वन्दे मातरम् फेसबुक पेज के लिए लिंक एवं क्यूआर कोड

<https://www.facebook.com/ind.vandematram/>



टीम वन्दे मातरम् इंस्टाग्राम पेज के लिए लिंक एवं क्यूआर कोड

<https://www.instagram.com/indiavandemataram/>



टीम वन्दे मातरम् यूट्यूब चैनल के लिए लिंक एवं क्यूआर कोड

https://youtube.com/channel/UC_bxYIj7KoA45Vzvm0ITK8Q



नोट:- कृपया व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर वंदे मातरम् से संबोधन करें।



95215-13271, +91 78498-81370

ई-मेल : vandematramteam@gmail.com

-: नोट :-



विज्ञापन

टीम वंदे मातरम् के द्वारा आयोजित इस संस्कार सेनानी पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लें।

नियम

1. आपके पास संस्कार चेतना मार्ग दर्शिका होनी चाहिए।
2. इस पुस्तिका में दिये गये संस्कारों की पालना करनी चाहिए।
3. शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 6 के अनुरूप किये गए कार्य की व्याख्या, दैनिक सहायता व्याख्या एवं अन्य विवरण पेज न. 10 पर करें।
4. इस प्रकार संस्कार चेतना मार्गदर्शिका प्राप्ति के एक माह बाद यह विवरण अपने कक्षा अध्यापक को मय 21 रुपये के साथ जमा करवा दें।
5. टीम वंदे मातरम् द्वारा इसको प्राप्त किया जाएगा इस विवरण के आधार पर प्रति विद्यालय 3 संस्कार सेनानी चुने जाएंगे।
6. इसके साथ आपको निर्देशित किया जाता है, कि संस्कार चेतना मार्गदर्शिका को साफ-सुथरा रखें।
7. अपनी मासिक रिपोर्ट को सही से भरकर पालना किये गए संस्कारों का हाँ या ना में उत्तर दें।

दिये जाने वाले पुरस्कार का विवरण

1. प्रत्येक विद्यालय से एक माह बाद 3 संस्कार सेनानी चुने जाएंगे।
2. प्रथम स्थान पर चुने गए संस्कार सेनानी को निम्न पुरस्कार देय होगा –
(i) प्रशस्ति-पत्र (ii) संस्कार सेनानी प्रिन्टेड टी-शर्ट (iii) एक टोपी
3. द्वितीय स्थान पर चुने गए संस्कार सेनानी को निम्न पुरस्कार देय होगा –
(i) प्रशस्ति-पत्र (ii) संस्कार सेनानी प्रिन्टेड टी-शर्ट
4. तृतीय स्थान पर चुने गए संस्कार सेनानी को निम्न पुरस्कार देय होगा –
(i) प्रशस्ति-पत्र (ii) एक टोपी

नोट : चुने गये सभी छात्र एवं छात्राओं को टीम वंदे मातरम् द्वारा संस्कार सेनानी के पद से किया जाएगा।



आर्थिक सहयोग के लिए न्यूनतम 21 रुपये का दान करें।



जागो युवा बदलो देश ।
वन्दे मातरम् देता संदेश ॥

आओ फिर से करें शुरुआत ।
टीम वन्दे मातरम् के साथ ॥

विज्ञापन

नोट :- यह मार्गदर्शिका बी.पी.एन.एल. के सहयोग से प्रकाशित की गई है ।